

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन के संगठन, सम्मानार्थ रिक हैन्सन फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन रेटिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (11 मार्च, 2020) – ब्रैम्पटन को ओनटैरियो की उन दस म्युनिसिपल्टीज में से एक के तौर पर चुना गया है, जहां स्थानीय संगठन सम्मानार्थ रिक हैन्सन फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन (आर.एच.एफ.ए.सी.) (Rick Hansen Foundation Accessibility Certification) (RHFAAC) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यह एक ऐसा प्रोग्राम है, जो रेटिंग देता है कि विकलांगों के लिए बिल्डिंग्स कितनी सुलभ हैं।

सिटी के गैर-लाभ, सार्वजनिक और निजी संगठनों को निशुल्क आर.एच.एफ.ए.सी. (RHFAAC) रेटिंग का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे अपनी बिल्डिंग के सुलभता स्तर को बेहतर ढंग से समझ पाएं और सुधार करने के तरीकों की पहचान कर सकें। काफी उच्च रेटिंग प्राप्त करने वाली बिल्डिंग्स, रिक हैन्सन फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी सर्टिफाइड (Rick Hansen Foundation Accessibility Certified) अथवा एक्सेसिबिलिटी सर्टिफाइड गोल्ड (Accessibility Certified Gold) बनेंगी।

नए सम्मानार्थ आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम की फंडिंग, रिक हैन्सन फाउंडेशन की साझेदारी में ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) द्वारा की जाती है। इसका लक्ष्य समुदायों को अधिक सुलभ बनाना है। ब्रैम्पटन का चयन, इसकी आबादी और भौगोलिक विविधता के लिए किया गया था। ब्रैम्पटन में लगभग 25 स्थान, आर.एच.एफ.ए.सी. की रेटिंग के लिए योग्य होंगे। संगठनों के लिए 27 मार्च तक www.rickhansen.com/freerating पर आवेदन करना आवश्यक है।

आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम के बारे में और जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

झलकियां

- जिन संगठनों को आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम द्वारा रेटिंग दी जाएगी, उन्हें स्कोरकार्ड और सफलता के मुख्य क्षेत्रों और उनके स्थानों के लिए सुधार की रिपोर्ट मिलेगी।
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी (Accessibility Advisory Committee), जिसमें नागरिक सदस्य हैं, मई के अंत/जून के शुरू में, आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम के सभी आवेदनों की समीक्षा करेगी। आवेदकों को 3 जुलाई, 2020 तक सूचित किया जाएगा कि उनका आवेदन सफल हुआ था या नहीं।
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और इसकी [एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी \(Accessibility Advisory Committee\)](#) यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि हर उम्र और योग्यताओं वाले लोगों को, ब्रैम्पटन में रहने, खेलने, घूमने और निवेश करने के समान अवसर मिलते हैं।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है। सिटी में हम विकलांगों के लिए बाधाएं दूर करने और हमारे विविध समुदाय में सुलभता के अवसरों को पहचानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे बेहद खुशी है कि ब्रैम्पटन का चयन आर.एच.एफ.ए.सी. प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए किया

गया था। मैं स्थानीय संगठनों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे इसमें हिस्सा लें और हमारे शहर को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने में हमारी मदद करें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी में काउंसिल का प्रतिनिधि होने के तौर पर, मुझे गर्व है कि हम ब्रैम्पटन को हर उम्र और योग्यताओं वाले लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं हर प्रकार के संगठनों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे आर.एच.एफ.ए.सी. रेटिंग प्राप्त करने के इस निशुल्क अवसर का फायदा उठाएं। बाधाओं को दूर करके, हमारा शहर सबके लिए अधिक सम्मिलित और सुलभ बन जाएगा। इससे विकलांग भी हमारे समुदाय में पूरी तरह से शामिल हो पाएंगे।”

- पेट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; मेम्बर, एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, रीजन ऑफ पील एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी

“ओनटैरियो सरकार द्वारा उदार फंडिंग, कई संगठनों को उनकी बिल्डिंग की सुलभता को समझने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाएगी। यह निर्मित वातावरण के संबंध में उनकी भविष्य की सुलभता योजनाओं के बारे में सूचित करने में मदद करेगी। संगठनों के लिए यह शानदार अवसर है, जिसमें वे ओनटैरियो को हर उम्र के लोगों के लिए और विकलांगों की बढ़ती अबादी के लिए अधिक सम्मिलित बनाने में मदद कर सकते हैं।”

- ब्रेड मैकैनेल (Brad McCannell), वाइस प्रेजिडेंट, एक्सेस एंड इन्क्लूजन, रिक हैन्सन फाउंडेशन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca